



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 686 राँची, बुधवार,

21 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

09 अगस्त, 2019

संख्या-14/जा०नि०-03-10/2015 का० 6467-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के क्रमांक-97 पर हिन्दी में “प्रजापति (कुम्हार)” तथा अंग्रेजी में “Prajapati (Kumhar)” अंकित है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक-03/पि०व०आ०-17/2019/262/पि०, दिनांक-15.07.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 97 में दर्ज “प्रजापति (कुम्हार)” को रोमन लिपि के रूप में “Prajapati

(Kumbhar)/Prajapati (Kumhar)" अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-97 में दर्ज "प्रजापति (कुम्हार)" जाति का अंग्रेजी रूप "Prajapati (Kumbhar)/ Prajapati (Kumhar)" के रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा परिचारित पत्र के साथ अनुलग्न अनुसूची-1 के क्रमांक-97 पर दर्ज "प्रजापति (कुम्हार)" की अंग्रेजी वर्तनी "Prajapati (Kumbhar) /Prajapati (Kumhar)" समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दीपक कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
